

उत्तराखण्ड शासन

खेलकूद अनुभाग

संख्या- /VI/2019-34(02)2015

देहरादून: दिनांक 20 जून, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-580, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखण्ड में होने के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (Uttarakhand National Games Organising Committee)" के गठन के साथ समिति की गर्वनिंग बोर्डी एवं कार्यकारी समिति नामित करते हुये समिति का कार्यालय निदेशालय खेल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में होगा, का आदेश निर्गत किया गया था।

2- भारतीय ओलम्पिक संघ के पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2019 में की गयी अपेक्षानुसार पूर्व में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-586, दिनांक 31 जुलाई, 2017 द्वारा कार्य की तात्कालिकता एवं महत्व को देखते हुए खेल/युवा कल्याण/अन्य विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन सम्बन्धी कार्य के आदेश को अतिक्रमित करते हुये वर्ष 2021 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखण्ड में प्रस्तावित है। राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों हेतु आवश्यक खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है जोकि अन्तिम चरण में है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु राष्ट्रीय खेल सचिवालय (National Games Secretariat) का विधिवत गठन भी स्थापित किया जाना है। सम्यक् विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में "राष्ट्रीय खेल सचिवालय (National Games Secretariat)" का कार्यालय "खेल निदेशालय महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून" में गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कार्य की तात्कालिकता, समयबद्धता एवं महत्व को देखते हुये प्रस्तर-2 में भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा की गयी अपेक्षानुसार निम्न अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन सम्बन्धी कार्य अपने मूल कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निर्वहन करने हेतु प्रदत्त किये जा रहें हैं :-

**38वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय खेल सचिवालय हेतु  
प्रस्तावित अधिकारीगणों का विवरण**

S.No.	Designation as per IOA	Proposed Designation	Proposed Officers
1	2	3	4
1	CEO/Director/Senior Officials	CEO	Director Sports
2	Chief Engineer and Director/Senior Officials of General Infrastructure	GM/OSD General Infrastructure	Mr. Rakesh Chandra Tiwari, PM, Peyjal Nigam (Sports Wing)
3	Director/Senior Officials of Venues	Dy. CEO, Venues, Planning & Liaison	Mr. Ajay Kumar Aggarwal, Dy. Director, YW
4	Director/Senior Officials of Sports	Dy. CEO Sports & Training	Dr. Dharmendra Bhatt, Joint Director, Sports
		Sr.Mg. Sports & Training	Mr. Rajesh Mangain, DSO, Dehradun.

5	Director/Senior Officials of Accommodation, Games Village and Food	GM/OSD, Accommodation, Games Village and Food	1- Mr. Shakti Singh, Dy. Director, YW, 2- Mr. S.K.Jairaj, Asst. Director, YW
6	Director/Senior Officials of Travel and Transport	GM/OSD, Travel and Transport	1-Mr. Dinesh Pathoi, RTO, Dehradun, 2- Mr. S.K.Sarki, Dy. Director, Sports
7	Director/Senior Officials of Security and Safety	GM/OSD, Security and Safety	SP City, Dehradun
8	Director/Senior Officials of IT Services and Accreditation	GM/OSD, IT Services and Accreditation	Mr. Ratan Singh, NIC State Unit, Dehradun
9	Director/Senior Officials of Ceremonies and Cultural Activities	GM/OSD, Ceremonies and Cultural Activities	1-Ms. Beena Bhatt, Cultural, Directorate, 2- Mr. R.C.Dimri, Joint Director, YW
10	Director/Senior Officials of Medical and Anti-doping Services	GM/OSD, Medical and Anti-doping Services	CMO, Dehradun
11	Director/Senior Officials of Media and Communication	GM/OSD, Media and Communication	Mr. Nitin Upadhyay Dy. Director, information
12	Director/Senior Officials HR and Volunteer Programme	GM/OSD, HR, Administration and Volunteer Programme	Mr. Neeraj Gupta, Asst. Director/Commandant, YW
13		GM/OSD Finance	Mr. Bhaskara Nand Pandey, CTO Cyber Treasury, Dehradun/FC, Youth Welfare

4- उक्त अधिकारीगण राष्ट्रीय खेल से जुड़े हुये सभी महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन/राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति, महासचिव, भारतीय ओलम्पिक संघ एवं निदेशक, खेल के निर्देशन में करेंगे।

5- इस हेतु उक्त अधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन भत्तों आदि देय नहीं होंगे।



(अतर सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 292/VI/2019-34(02)2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), युवा कल्याण/खेल/परिवहन/संस्कृति/सूचना/वित्त/गृह/पेयजल/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को इस आशय से कि राष्ट्रीय खेल राज्य के लिये महत्वपूर्ण आयोजन है। अतः राज्य/कार्यहित में अपने विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. निदेशक, युवा कल्याण/लेखा परीक्षा/खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अधिशासी निदेशक, भारतीय ओलम्पिक संघ, ओलम्पिक भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2019 के क्रम में सूचनार्थ।
9. महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)  
अनु सचिव।